



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 278]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 18, 2005/फाल्गुन 27, 1926

No. 278]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 18, 2005/PHALGUNA 27, 1926

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2005

का.आ. 349 (अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग (किसी व्यक्ति द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग खंड/राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थाई पुल/अस्थाई पुल के उपयोग के लिए फीस वसूल करना) नियम, 1997 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1457(अ), तारीख 20 दिसम्बर, 2003 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 23 दिसम्बर, 2003 में प्रकाशित की गई थी, में संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(क) पैरा 2 में "एफ-40/49, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र जयपुर" अंकों और शब्दों के स्थान पर " 'ओएसिस', 5—8, वीर विहार क्वींस रोड, जयपुर-302021 " शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ख) "परिभाषाएं" से संबंधित पैरा के खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(i) "वास्तविक फीस" से 237/500 कि.मी. से 363/885 कि.मी. के लिए इस अधिसूचना की अनुसूची में दी गई आधार फीस के अनुसार जो प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित की जाए; सड़क उपयोक्ताओं से वास्तविक रूप से प्रभारित फीस अभिप्रेत है;';

(ग) टिप्पणों में, टिप्पण 6 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"7 सड़क उपयोक्ता, वास्तविक फीस का संदाय केवल प्रथम प्लाजा पर ही करेंगे और पश्चात्वर्ती प्लाजा पर ऐसे भुगतान का सबूत देंगे।"

[फ़. सं आर डब्ल्यू/एनएच-37011/65/2002-पीआईसी]

आलोक रावत, संयुक्त सचिव

टिप्पण.—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.आ. 1457(अ), तारीख 20 दिसम्बर, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**(Department of Road Transport and Highways)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th March, 2005

S.O. 349(E).—In exercise of the powers conferred by Section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) read with rule 3 of the National Highways (Collection of Fees by any Person for the Use of Section of National Highways/Permanent Bridge/Temporary Bridge on National Highways) Rules 1997, the Central Government hereby amends the notification of the Government of India in the then Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 1457(E), dated the 20th December 2003, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 23rd December 2003, namely :—

In the said notification,—

- (a) in paragraph 2, for the letter, figures and words “F-48/49, Malviya Industrial Area, Jaipur”, the words and figures “ ‘OASIS’ , 5-8, Veer Vihar, Queens Road, Jaipur-302021” shall be substituted;
- (b) in the Paragraph relating to “Definitions”, for clause (i), the following clause shall be substituted, namely :—
‘(i) “actual fees” means the fees actually charged from the road users for km 273/500 to km 363/885 as may be approved by the Authority in accordance with the base fee given in the Schedule to this notification;’;
- (c) in the Notes, after note 6, the following note shall be added, namely :—
“7. The road users shall pay the actual fee at the first plaza only and shall provide proof of such payment at the subsequent plaza.”.

[F. No. RW/NH-37011/65/2002-PIC]

A LOK RAWAT, Jt. Secy.

Note.—The Principal notification was published in the Gazette of India *vide* S.O. 1457(E), dated the 20th December, 2003.